



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 माघ 1935 (श०)
(सं० पटना 157) पटना, शुक्रवार, 14 फरवरी 2014

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग,
(पुरातत्व निदेशालय)

अधिसूचना
12 फरवरी 2014

सं० 3पुरा/वि०-3-01/2013-39—राज्य सरकार ने बिहार राजपत्र के असाधारण अंक संख्या पटना-574 दिनांक 18 जुलाई 2013 में प्रकाशित बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग (पुरातत्व निदेशालय) की अधिसूचना संख्या-5पुरा/वि०-3-01/2013/372 दिनांक 17 जुलाई 2013 द्वारा उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट पुरातात्विक स्थल सोफा मंदिर जो पश्चिम चम्पारण जिला के गौनाहा प्रखंड के अन्तर्गत अवस्थित है, को प्राचीन स्मारक/पुरातत्व स्थल/अवशेष के रूप में सुरक्षित घोषित करने की प्रस्ताव सम्बन्धी अधिसूचना “बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल, अवशेष तथा कला, निधि अधिनियम, 1976” की धारा-3, उप-धारा-1 के प्रावधान के अन्तर्गत अधिसूचित कर, इसकी एक प्रति उक्त प्राचीन स्मारक/पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष के निकट स्पष्ट रूप से द्रष्टव्य स्थल पर चिपका दी थी। इसके विरुद्ध सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा दो माह की अवधि के अन्दर आपत्ति अथवा सुझाव आमंत्रित किया गया था।

जनता को उपलब्ध कराई गई उक्त राजपत्रित अधिसूचना (संख्या-574, दिनांक 18.07.2013) के घोषित किए जाने के विरुद्ध निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुए। फलस्वरूप उक्त स्थल को सुरक्षित घोषित किए जाने योग्य समझा गया।

अतएव एतद् द्वारा राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा-3 की उप-धारा-(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक/पुरातत्व स्थल/अवशेष को सुरक्षित घोषित करती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार मल्लिक,

सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार द्वारा सुरक्षित घोषित किये जानेवाले प्राचीन पुरातात्विक स्थल/अवशेष/की राजस्व विवरणी

| कं० | पुरास्थल/स्मारक का नाम | अवशेष | खाता नं० | खेसरा नं० | रकबा | चौहद्दी | जमीन की किस्म |
|-----|------------------------|--|----------|-----------|----------|---------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | सोफा मंदिर, बेतिया | सोफा मंदिर, परिसर एवं पुरातात्विक स्थल | 19 | 59 | 3.14 डी० | | रास्ता |
| | | | 19 | 62 | 1.47 डी० | | ब्रह्म स्थान महायोगिन |
| | | | 19 | 63 | 0.02 डी० | | मंदिर |

| ग्राम | मौजा | प्रखंड | थाना | थाना नं० | जिला | अभ्युक्ति |
|----------|----------|--------|----------|----------|-----------------------|-----------|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| महायोगिन | महायोगिन | गौनाहा | शिकारपुर | 179 | बेतिया पश्चिम चम्पारण | |

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अशोक कुमार मल्लिक,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 157-571+500-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>